य हरः नेवातन कं का वं नीनाठाजा जीजाः

गाद: काय मदू ल्मीमि थार्थं नीज्ञाथ वं कानया

नाम॥ नाहा नानी स्तनध्याया॥ ॐ मू ति: सानथा हाका

नाकानानी वँ कनथ थ: मूलि ताज पन ध्याया॥॥

आशा सफू कुथि
ASHA ARCHIVES
721

श्री
भान
ग्रा

श्रानमसूदा:।। निश्चितानकिं द्वदउ।। नकग तिसानमा तः।
भाष्वकया।। होमि दा मंहु ४ कर्क ठासि मूं स ४० वृष्ब
नामूनमं ह ४ कववि सी कीव मूं ४ रपु कं सनमं
मिघमं ४ दूनान ९ ४ तानिस ४ हु थि ४ विपीनामू
नमं ४ ५५ कम्मान मं २ नवं ह्वव ४ त्रिकनु १२ सिपि

कि
४१
ब

मं ४ कस्लि प्ररधे नगर्स्का १ भाष्वकया।।
२ ताकनयघ्या: कस्लिघू नगन।। हि वि मं ७ कर्क तासि मं
नयकं सनमं ७ वं सनाचनमं ७ त्रिक दू मं कं ति निम ७
वृष्कु नामूनमं ७ लागा दामं ७ कं कना ७ विपनामू
मं ७ नवद मं ७ कस्लि दूनगान।। कासनपया।। भ्र

भाषर्या

बसस ख्याकया

२ज्ञतियसमं ३ सिद्ध बि२ थैथ बिमं ४ दनदमं ५
कुसूनिमं ४ सूथीमं ४ थकरखादूनेबसस्त्री
लनक: ब[illegible] तमाद ख्याकनाह ॥४॥ सूकख्या
नमं १ वात कमं १ नर्क थ्याबमं १ कुकिमिनिमं १ थि
थ्यनिमीमं १ बैह नायमं १ बहूनहमं १ हाखवनबस्त्री
कनेसयहिद

मं ८ कक्लिनवा नाउनकं: वाकथितकनहयाहि
दामा २ज्ञानह: दिकहनं: सूनकू: थक सिहन
यबपनयायक्गतवातनाह ॥ ३॥ सूथानी स्त्री थकदा
नक्लाहहवातन ख्याकनाह ४॥ ४॥ नकूवातवाहनथं
नातिदा: मन्मा थिन: मनय: ॥ सिक्लामूनि: हादूदून

निस्रेयायः न क वातना ह४। मं हगनानयाहिरकाँ
क्वना ३ जिनि ३ ह क जिनि ३ त्रि कद्रु मं २ यम स्रखान मं ३
घननव्राना ङानकॆ॥ गनास ना ह॥१॥ मनयमं १
ग्रु मं १ ङ्नपान मं १ ति रखान द द्र मं १ नियाङा
पाय क्रस्क नागनात ४॥४॥ हिद वि मं ३ ह्न ङ्य

न १ मिनक्कयर काङा क्कयः मनयरवन गग नंव
न नियाङातानकॆः ग्वनया व्याधि ह्रू सवू द क्कदयि ङा॥
मका गिनि ः त्र सा ग्वनरवीसि ग्ग निक्कयः व्रागस्की वनि
याङातानकॆः कमन पितक्क वया कॊ॥४॥ न कॊद्र
दूङा ततङा॥ ७० दप ताता कियाति ग्र ताक्का १ द्र

धन सन तिं ञ्ह स्का स्थि। ञ्ह कि नियाती ञ्ह स्का स्थि। ग्हम
म्हूतन नियाः छुं द्यू: हता कि मियाति ञ्ह स्का स्थि।
स्वान नियाति ञ्ह स्का स्थि। स्वान विपु। स्वा सूक छ्वी या
सीद॥ सूथी: सनव: वीवनि: मूसु: दिद: ञ्वावन
ह्ना: छवबान हि॥ साबन ह्ला स्वीतान कें॥ ध्वात ह्या

क॥ ह्रा स्याक॥ नूगन स्याकु॥ दू दू स्याकना ह्र१।
ति छू नातिक: कान ह्रा स का॥ धूमि॥ क छिन ह्रानाऊ
न कें॥ ञ्वावन विननाह १॥ ह्रू कन्यान: वऊ छूं
व॥ धान क॥ साबन॥ ह्रमह गयादाऊँ॥ क
छिह्रानाऊँन कें॥ दूदी छुं ह्रनाह॥ ॥

नेन वालि या स्य येन

१ दू तीउं या॥ ता ता॥ स्वं ना॥ घ न स्ह रा ना उं न कें॥
त क मि त ना सा॥ ४॥ द्न ड्र स्हू थी: साया दू दू स्ह:
स्हा स्यं ता न कें: वा त स्यं ख म न स्हा। ४॥ म न व: पीव
नि: स्हु थि: स्हम ट्ग म स्हू त ग १४ कू म स्ह लया १४
थ न स्ह म ला ग दौ उं न कें: मी स्हा या: त क स्हू न

मि नया कीमा

ना स्ह ४॥ ता न स्ह न: त उं क स्हू नि: थ द्र न या का डों:
स्हा दू दू स्ह स्हा स्ह का न कें॥ मि दी न वा उं ना स्हा ध्व॥
२ ङ्ग नि म द या द य कें: मि थि व्र २ प न
नो ना १ ०ॐ स्ह नि ज र ना १ पी पी नी ती ना १ वा कू ङ्गु
का १ थ न स्ह म ती ग पा का ङ्ग जि ङ्ग उ या ङ्ग गा नी दूक

२ ॐ ॥ब्रह्मा ब्रह्मा य; वंश कथाबयाः ब्रह्मा क्रुडा
यस्याः ... गिदवाना; नागिनि दवाना: नागना
गा; ह्रं ह्रं ह्रनी ह्रं ह्र ह्र प्रखा दा; ब्रह्म ब्रह्मा कि
वाया; हतगान छादा॥ ॥१००॥ श्री कामरूख्या द
विकि ह्याख्या; खगीनागि: स्मगिनि: बक
ह

कथाव: कसिर्ई खता: धनइ६ ॥द्रन मा४ग्रन्
ह्याख्या॥ मातना: तिवना: नूतना; त्रिनी ब्रसें: क
मार्ने; विदङ नाकि: काकेतक कहूजा पि: हमी
पतान वादवा; बवादनि: कपार्न: नासजाङ्गि;
सिस नाव माता दवा: वाछि निराव: दत्तुर्म

त्र विन: दाहि निनाष: तन सिघ विन; ज्ञान
प: ह्रवँ तान; विच्छनाष: हि म ष्ठ्यन ष्ठ ह्र किस ग:
मनी ह गति; ह्न नाम कुन ॐ ष्व न वाचा॥ क्षन २
थ्व म न्कुनगपनवाडा; थजे ॐ नकायाडा:
ह्र तिनन ह्रतिन के: नच्छे स: ज्ञा ह्यानमतिय:

ज्ञायाकडाव थ्व; मवन ह्रकेम ह्र! दनथ्वजु
द: ज्ञानन याय; जल गयाका जीव थ्व कायावे आव:
४॥ ॥ श्रीहन्न हे श्रीहग्सा॥ खी ताम नियाँ मन्त्र:
मनम्ङोगा: ॐ ह्रादिडदि वीथ: मिधबाहा:
भनह्र छेन: सिंधन: किष्वन: ङरुमका: दछाम

ॐ नमः स्वान्त्रसक थङा मिधडूङ्॥ ॥ दं नाम
कान न्तू दू दस्था जस्वाहि॥ धन १०३॥ त स्तान
हत ङा: दङाम क तङा॥ मं क्रु दं गु तङाः प्रगा
याय: ऋ पम्याय: ध्वरू नि याय॥ ४४॥ इति द्विग
न्श्रा स्हा: ॐ क्लू स्वाहा॥ धनेन पधम क्रु थ्व वाङ

पनवाङास ई निकायका॥ ४॥ ॐ न क्षे नमः दि
धिन लूल: न्केनङयो र्द्ध कामना निवाया: त्रा
ण रं न्हा स्हा॥ धन त थ्व नं क्रुयाल्यन: सू पत: काया
ङाः थं स्वन्न्स्तय: नासवनतय: स गु वाने: वाङू
स्थान काया ङा: मं क्रुयाय: स्कू गान थ ङाकेतय:

ः स्त्र्यन हृ जय कं ः स्त्र्यन तृ हतय ः वधान या
य हर्कृ ध्वया या ॥ ॥ ॐ नमो गरुड क्रौं ह्रं ग्म
म णा ह्रिं गरुडाङ्ग ॥ कामनं का मा का दं वि ः न
ग क का ना । मूरव यं वि का ः यक्र डा कि माता ः
यं ड झा ति ः ज्यय तन न सि ध्वर का न ण ॥ क्षात विकृ

क ज़ा वथ्व ॥ ४ ॥ क्षाया क्रीं ज़ाव ४ ॥ ॥
२ ॐ नमो ग्रा गरुड ह्री क्षा ॥ क्षव ला ला गि नानका
मानि ः मवन ध्वय य स हृ या ह निः थ्वा ॥ वृ झा गा ठवः
नि स्य ः श्रीग्म ः ध्व म न्त्र क्षनत ॥ क्र ताप हवन
याप ः क्रताप ह नन ः म क्षा नि दय वं ः क्रतलदय कं

म ह काल ह क्षमा कं

ममाह्न ना: क्न वायाय: मन: कन्ह नि: वायाहु
लक वुँसन: वाउन नियाना॥ ४॥ ।२ ॐन मा ग्राम
न्ह श्रा ग्म॥ ध्वन सा ता भिनि नानको मा नि: मव
न ग्वय म न्ह्या मू नि ळ: क्ना त व ह नयाय

ना वा हान नउ बा॥ थय सानी याउा॥ थ असैन
वाउा॥ त्र ब्वन ला विन क्र सीय॥ ॥२ हया नि: यन
ॐन गाना॥ ४॥ २ ॐ न म ग्रा मन्ह न्ह्वा स्वा सै क्ष:
विन थित ना तिन से व ष: सा हा: का स्न ना: ह
सैवं मू क्ष्या दानउाया

आशा सफू कुथि
ASHA ARCHIVES
721

भागयवानः गृहाकैम्प्रयाप्तिः सातव

पाश्चाद्दा वृक्षायः ॥ कावानस्थानेः नाम

जानसातानेः सर्वं नमक्षयादाग्राः छ नेक्त

नः नाक्षुइस्पानतालकमानः वसूत्रावखू

क्लानकंः ॥ २७ नमाम्यायदूरज्ञास्मा॥ ध्व

कनायदननः माह्नानिदराकः ह्नुतानदयके
कना ह्नता: ह्नुपानयायः मनः कृत् नि: यान
ऽनमग्नी गन्न श्रीरमः तलसमूमू: ला हा ॥ क्षान
॥ २ ॥ ह्नपनकत खान कथः खादयामून
धनःनान: सदद्दसह्नतांतान क्ष ॥
३५।

नदैनमक्तयादाया, म [illegible] ॥ ६ ॥ रसूका
दः भाति क्षा करवेयन [illegible] मानकोः द्वि कुमिक्षा
ला कर्वक्ष नाहम [illegible] ॥ ज्याबरय दाः निक्ष
[illegible] नानपा दद [illegible] नक्षत्रमिधानन
[illegible]

[illegible] ०

[illegible] नाकी ह सा न: स्वा ता: वि

[illegible]: ता कं त उा क्रु: स्नून विदाउा न कं: श्री

[illegible] ा द दू स मंत्र याय: न छ्या वियपर्त न्या

ता यन स त य: ज्ञा दित वनषू फ्क्रू:॥ वियद्दा

ज्ञनो: ध्वनी स्र मंत्र संकन मनउा ज्ञना ४॥

तन्दा र बिक्षन: हीदा: दउा दान्र: व ता: का व तिक्वि

नाक न: कक न: विड्हन: त्र का: पत्त का: निपहन:

श्रीप ता खा: हं हपा: मं ध्र ह्वान: नन सि: हायाद:

न ह्री याव: लाबन: विहा कि नया सक्वी: क्का
व्याम्न: उकान स ब्वं ह्रुय: ध्वनलान स
काबालउन: थ्व ह्वयाना स: मकुग्वन ह्वयध

य: थु ह्वय क्वथान: देवनं मन्हबनं: वाकिनि
नं: मनानं मह्नु: थ्व ह्वय क्वथानं: नागायाकु
उथ्य कानयायथानह्न नदाउ: क्व स कठंगनया
नदा: थ्वगनियायय ४।। ४४।। तकवंद्रन:

ङ: ल्हिमीन; कलून; ङु विच: ग्यो द्रुनन; ञ्य
का ङ्वन; ङ्मा ङ्रवयन; नं बपन। द्वि कंनङ्
न। द्वि कान: नंखङा: ह्ङायाङाङा; ह्ङि नि
स दायर्कों; मगाथ्यायजियकाङा: ङ्रासनङ्

मि हाह्नाबँ दाङायाता:

य: थर्पी न्हायया हिङ: मी हाह्नाङायँ हिङ:
यतसह्याकसी हिङ: नयदङा; सकनायाहि
ङ: घासयानहायँ हीङ॥ ३३॥ ॐ ग्रीगरक ग्री

कूर्म ॥ पिपिनी: ति ह्ल वि: सायादिहूस: ज्ञाना
ऊ: ङ्कपकौयकें: लत: ष्रत: पिसा ह: नपून
गस्मन: ध्वगरयाय ॥ ४४ ॥ दिगरनी: त्रका: प्रका:

ङ्कपथ्वङ्गन

निपहन: विछनि: वेंला: ध्वस्ळना नगयाकाउ:
ङ्कपकौयकें: थाकतिनिनथियसमहू: यत
नेउयाका: ङ्कपथ्वङ्गन ॥ ॥

कौ

२ ॐ नमोगुरुवेज्ञादेसः ॐ ह्न न्मधनः मतीछि
सानः सानमत कातसि ह्रीं प्रन स्वाहा ॥ धन ॥
नि लः तनः प्स्काना मनः दिदः सिङ्क्षि वि!
सोवास्कनः वेनचिः थ्वनि समला गदुर्ण याद

यन ह्याकै नासयाय।

या

ॐः क कना बसनयाओ सानकैः थ्यान ह्याक ॥
॥ वो तन रव नानकैः दु घं नप्र १ क नावा क्षा
कल्ल १४ थ्वाः जि हेननम ८ ति ह्न नाम ८ यानाम ८

ा जिन मं ७ खड्गन सि मं ७ सिपीन मं ७ ह्लजि मं ७
ग्नेह्यकान मं १ सानपाहाक मं १ सूकम्यान मं १
पापिन मं १ कस्तन मं १ वान मं १ मिह्य मं १ पाथ
क मं १ तउघ्व ६ कसू मं १ तउघजि मं १ स्तसमि

धानया
यू मं ७ नबाद मं ७ सादद्धक्र २ ॥ ॥२ ॠजनह्न
नीयाता: निखाउधान सथा को कृताह्ययउघि ङा ॥
न्हपकसन ता:खबाद्नबस निह्य मान सपायकी
मानह्यकेनाह ॥ ॥ कपाय्या कया ॥

कथान लिखिब्या ५ दुझ्नु ६ कि बाघ ट

को स मायया

२मस नि: ञाथे: मगन क्न नी याउं, मेहानस
मॅनकोउं, ब्र्क्ष याकउं; कह्नि नउं नाउं: ख
चि कउं. निक्ष कूलानकें: कूनाला: कउ्रं ; पउँ
को: खग: थनि: दद: नानदउं: क्ष थवादया

समान ॥ थि थियादका मनास ॥ ॥
२म नच भाना। सिध चितानो। ॐ मनीलाना।
को चिद नन लाना। कोविसुथ लाना। थदा
नाथ्रु र्क्ष यादा, दिन नव सत सलानकें: हू

नाविनयाक ॐ

पतह्याकनाह॥

ननिनङेः वाय्हनन, पतह्याकनाह॥ ॥

२ला क्रादूधनसियाह्ना. हननती. हाधनह्

।धानाङ. ध्वह्ना हननना दिह्क्ताकनङ कौ॥

॥ ॐ मूनिमिह्दयाङ. हामगोयकाज,

मयाङ ॐ क्री

लानहङया॥

कयानकं: लनापिनाङङयाना हकुंॐ॥

॥ याना: ही क्षाव: विपीन: जीन: हकजिन:

ॐ मूनः क्रामत्: क्नीवाकूथङानाङस्वद

विदः मयाक्रादङमीमी हाजनन्तूतिका

नानाह४॥

मि आया

२ हन द्रप्र १ घन प्र १ आवन प्र १ साबन प्र १ पिप
नि क्रख १ थ्व ति स मलगयादाउँनकं ॥ सास
ष नकं ॥ सी ब्राया जदयउ ॥ ७ ॥ फुं मूनी:
हि मनाज ॥ फुनान बिकंन स: दाम्ह तानकं:क

फुवानना स ॥ पन का: हन दि: मव थ्व ति पान्ति
मिखा स थ्वनं: स का नया ॥ हि मनाज: वकन:
नि लन स न य दीने ३ थ्व वि कन व सा पान स नयं ॥
मिखान आ वि दाउँ हि ॥ तान मून: ह्यक्षा नक्ष नीछ
न न उ क फुं ॥ ७ ॥ २ थ्वा न तानाग मि न्यान ताना ग

धनधेनतानागधाठनि सि:तानाग त्रिपदनंतानाग
गधघ्रा सादनिताना गजाकं० गानि:ताना ग निकंथ
गानि ता नाग वा ध्यो वान:ताना ग पि० ता:ताना ग
मखान:ताना ग पूनं डु न:ताना ग थनं क्वा कदाया

क: नेव ई ४ पे वा स क्वि वा र्जनं का। सादद ई ५
स्नकं: जानि: वं कन ई १ अविन सतिई १ पून
वादबूनबन मान: सानधा: कताना १ देवदाने:
ताना १ गता मा सि: तान १ वाठ क: ताना १ क्रकृ मता
ना १ सूकम्यान: तान १ वता ताना १ ज्राषंदन: ताना